



एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

NHPC Limited
(A Government of India Enterprise)

संदर्भ सं./Ref. No. NH/CS/199

फोन/Phone : _____

दिनांक/Date : 21.06.2017

<p>Manager The Listing Department, M/s BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001</p> <p>मैनेजर, लिस्टिंग विभाग, बीएसई लिमिटेड पि.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- 400 001 Scrip Code: 533098</p>	<p>General Manager The Listing Department M/s National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai- 400051</p> <p>महाप्रबंधक, लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400 051 Scrip Code: NHPC EQ</p>
--	---

ISIN No. INE848E01016

Sub: Signing of Memorandum of Understanding (MOU) 2017-18 between Ministry of Power and NHPC Limited.

विषय: ऊर्जा मंत्रालय और एनएचपीसी लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) 2017-18 पर हस्ताक्षर के संदर्भ में।

Sirs/महोदय,

This is to inform that in compliance with Guidelines issued by Department of Public Enterprise (DPE), NHPC has signed Memorandum of Understanding (MoU) on 20.06.2017 with Ministry of Power (MoP), Government of India for the year 2017-18.

The salient features of MoU signed with MoP are enclosed for ready reference.

It is requested to take the information on your record.

यह सूचित करना है की लोक उद्यम विभाग [डीपीई] द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में, एनएचपीसी ने 20.06.2017 को वर्ष 2017-18 के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

एमओपी के साथ हस्ताक्षरित एमओयू की प्रमुख विशेषताएं आपके संदर्भ के लिए संलग्न हैं।

आपसे अनुरोध है की यह जानकारी अपने रिकॉर्ड में लें।

धन्यवाद,

भवदीय

(विजय गुप्ता)
कंपनी सचिव

**The salient features of MoU signed with Ministry of Power and NHPC
for the year 2017-18**

1. Generation target under excellent rating has been set as 24000 MU as against last year target of 23500 MU.
2. Excellent Targets for Revenue from Operations has been kept as Rs.7350 crores.
3. Operating Profit as a percentage of Revenue from Operations (Net) has been kept as 25.09%
4. PAT/ Average Net Worth has been kept as 7.15%.
5. Ensure optimum utilization of budget CAPEX programme of NHPC has been assigned 10% weightage in the MOU 2017-18.

Further, targets regarding Plant Availability Factor, Forced Outage, and Reduction in outstanding claims, Trade Receivables, Dividend/PAT, etc. have been included in the MOU. Human Resource Management (HRM) related parameters have also been included with 10% weightage in the MOU.

Amrinder